

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 की प्रतिक्रिया में सिटी के स्वामित्व वाली फैसिलिटीज के किराएदारों और गैर-लाभ संगठनों को किराए से राहत प्रदान की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अप्रैल, 2020) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन को घोषणा की कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी की 41 फैसिलिटीज में छोटे कारोबारों और गैर-लाभ संगठनों के किराएदारों को किराए से राहत प्रदान करेगी।

COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देश पर, सिटी की सभी फैसिलिटीज अगले नोटिस तक बंद रहेंगी। इस बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय के कारण सिटी, सिटी की फैसिलिटीज के किराएदार कारोबारियों और संगठनों पर होने वाले आर्थिक प्रभाव को समझती है।

सिटी स्टाफ (City Staff) की सिफारिश के आधार पर, सिटी तीन माह तक की अवधि के लिए अपने गैर-लाभ संगठनों और छोटे कारोबारी किराएदारों के लिए किराए के भुगतानों को स्थगित करेगी। साथ ही, अपने गैर-लाभ किराएदारों को 3 माह तक की अवधि के लिए, भुगतानों से छूट देगी, जो नए फेडरल प्रोग्रामों तक पहुंच में असमर्थ हैं। यह राहत, सिटी के 81 किराएदारों में से आधे से अधिक को सहयोग प्रदान करेगी।

सिटी के किराएदारों की मौजूदा स्थिति यह है कि कुछ किराएदार, गैर-ज़रूरी कारोबारों पर पाबंदी लगाने के प्रांतीय आदेशों के कारण अपने काम बंद करने के लिए बाध्य हो गए थे, जबकि कुछ किराएदारों ने शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए अपने कारोबार बंद कर दिए हैं।

काउंसिल को इस फैसले के बारे में जानकारी, 8 अप्रैल की काउंसिल की मीटिंग में एक रिपोर्ट के तौर पर मिलेगी। सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों को सूचनाएं देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। यह COVID-19 के लिए सिटी की प्रतिक्रिया के बारे में ताज़ा जानकारी उपलब्ध होते ही निवासियों को वह जानकारी देना जारी रखेगी। उपरोक्त फैसलों के बारे में और COVID-19 की प्रतिक्रिया में समुदाय को सहयोग करने के लिए सिटी के सभी प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं अथवा [@CityBrampton](https://twitter.com/CityBrampton) को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

संक्षेप तथ्य

- इस समय, सिटी की 41 फैसिलिटीज में 81 किराएदार हैं।
- मौजूदा तौर पर, सिटी एक महीने में \$302,134.68 किराया लेती है। सिटी के स्वामित्व वाली बिल्डिंग्स के अंदर सभी गैर-लाभ संगठनों को तीन माह तक की किराए से छूट से, सिटी पर \$202K का खर्च आएगा।
- इस समय, सिटी ने किसी भी किराए वाले स्थान तक पहुंच पर पाबंदी नहीं लगाई है और किराएदारों से इस बारे में बातचीत की है कि यह उनका व्यावसायिक फैसला है कि वे अपने काम बंद करना चाहते हैं या नहीं क्योंकि आवश्यकता होने पर सिटी पहुंच को आसान बनाना जारी रखेगी। हालांकि, बेहद मुश्किल मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, कुछ किराएदारों ने बंदी की अवधि के दौरान किराए से राहत के संबंध में पूछताछ करनी शुरू कर दी है।

हवाले

“हमारे छोटे कारोबारियों और गैर-लाभ संगठनों को सहयोग करना, अर्थव्यवस्था के इस मुश्किल समय के दौरान महत्वपूर्ण है। हालांकि सिटी हॉल और सिटी की फैसिलिटीज अगले नोटिस तक बंद हैं, सिटी ने विक्रेताओं के लिए, 30 दिनों से 14 दिनों तक हमारे भुगतानों की शर्तें बदल दी हैं। आज, हम सिटी के छोटे लाभ और गैर-लाभ संगठनों के किराएदारों को किराए से सीधी राहत का अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, ताकि हम इन समूहों और छोटे कारोबारियों को सहयोग कर पाएं, जो ब्रैम्पटन के सामुदायिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी की 41 फैसिलिटीज में हमारे छोटे कारोबारों के और गैर-लाभ संगठनों के किराएदारों के लिए, सिटी एक सहयोगात्मक साझेदार है। जबकि सिटी की फैसिलिटीज, प्रांत के और पब्लिक हेल्थ के निर्देश पर बंद हैं, सिटी उन कारोबारियों और संगठनों को राहत प्रदान कर रही है, जो सिटी के लिए राजस्व का उपयोगी स्रोत हैं। आज की घोषणा, COVID-19 के दौरान उनकी जारी कारोबारी आवश्यकताओं में सहयोग करती है। हम आने वाले महीनों में सहयोगपूर्ण तरीके से उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।”

- डेविड बैरिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अब पहले से कहीं अधिक, यह महत्वपूर्ण है कि हमारा समुदाय, उन लोगों के लिए लगातार सुरक्षित और सहयोगात्मक स्थान प्रदान करता रहे, जो COVID-19 के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। आज की घोषणा, ऐसा करने में ब्वायज एंड गर्ल्स क्लब ऑफ पील की मदद करती है। मैं इस समय के दौरान ब्रैम्पटन के युवाओं के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और काउंसिल के लगातार सहयोग और अनुकम्पा के लिए उनका बहुत-बहुत आभार और प्रशंसा करता हूँ।”

- माइकल जे, गिओवे (Michael J. Gyovai), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ब्वायज एंड गर्ल्स क्लब ऑफ पील

“स्पोर्ट्सफिक्स हमारे स्वस्थ और क्रियाशील साझेदार को पेशेवर स्पोर्टिंग सेवाएं प्रदान करते हुए, 30 वर्षों से अधिक समय से ब्रैम्पटन को अपना घर कहती है। हालांकि COVID-19 के परिणामस्वरूप, साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में हमारे मूल स्थान को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा आज की घोषणा, इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बेहद आवश्यक राहत प्रदान करने में मदद करेगी।”

- माइकल गाउट (Michael Gout), मालिक, स्पोर्ट्सफिक्स

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca